

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 3, 2017 (फाल्गुन 6, 1938)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2017 (PHALGUNA 6, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं. ओ.दो. 3886/2011—कार्मिक डीए-6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ० (सुश्री) तरनजीत कौर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (उप कमाण्डेंट), ईरला संख्या-8655, संयुक्त अस्पताल, के०रि०पु०बल, जम्मू द्वारा दिनांक 20/01/2017 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 20/01/2017 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 2 फरवरी 2017

सं. ओ.दो. 4040/2015—कार्मिक डीए-6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ० चेतन कुमार आत्माराम भोसले, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला संख्या-10594, 126 बटालियन, के०रि०पु०बल द्वारा दिनांक 31/01/2017 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 31/01/2017 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 6 फरवरी 2017

सं. ओ.दो.7927/2017—कार्मिक.डी.ए-4—श्रीमति पल्लवी शर्मा, उप कमाण्डेन्ट (इरला-7927), ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, ग्रेटर नोएडा के सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 28/01/2017 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28/01/2017 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 3 फरवरी 2017

स्थापना आदेश संख्या : 58 [सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/2974]—ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/2732 दिनांक 13.01.2017 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 1026 दिनांक 13.01.2017 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल-9 पर लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है:—

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01	शरत कुमार गजेन्द्र	13.01.2017 अपराह्न
02	सुरेन्द्र नाथ नायक	16.01.2017 पूर्वाह्न

सिन्धु महान्ति
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) का कार्यालय, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना

हैदराबाद -500004, दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. प्रशा. I/यू-1/4-26/2016-17/208309—प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, हैदराबाद ने सहर्ष निम्नलिखित एड-हॉक(तदर्थ) सहायक लेखा अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख बताई गई तिथि से लेवल-8 वेतन मैट्रिक्स में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है :-

क्र.सं	नाम श्री/श्रीमती	का.आ.संख्या तथा दिनांक	स.ले.अ के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
1.	एल. ज्योर्तिमयी	प्रशा-1/यू-1/4-6/2016-17/ का.आ.संख्या-122 दि. 12.01.2017	13.01.2017 पूर्वाह्न

यह पदोन्नति उनके वरिष्ठ द्वारा दायर दावों और पूर्वाग्रह के बिना, अगर कोई है तो, तथा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट/केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में लंबित रिट याचिका के निर्णय के तहत होगा।

ह/- अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 10 फरवरी 2017

सं. प्रशा. I/यू-1/8-88/2016-17/208416—प्रधान महालेखाकार(ले एवं ह) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, हैदराबाद ने सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख बताई गई तिथि से लेवल-9 वेतन मैट्रिक्स में लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है :-

क्र.सं	नाम श्री/श्रीमती	का.आ.संख्या तथा दिनांक	ले.अ के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
1.	जी. शिवप्रसाद	प्रशा-1/यू-1/4-6/2016-17/ का.आ.संख्या-121 दि.12.01.2017	12.01.2017 पूर्वाह्न

यह पदोन्नति उनके वरिष्ठ द्वारा दायर दावों और पूर्वाग्रह के बिना, अगर कोई है तो, तथा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट/केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में लंबित रिट याचिका के निर्णय के तहत होगा।

ह./- अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 10 फरवरी 2017

सं. ओई(ई एण्ड सी)/ईआईवी/पी/16-17/229—

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती तंकम्मा पी एम	लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय एरणाकुलम	31.12.2016

ह./- अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 7 फरवरी 2017

सं. पखनि-51(15)/2013-पेंशन—निम्नलिखित अधिकारियों ने उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुमोदन के फलस्वरूप उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने पद-भार का त्याग किया है।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यभार छोड़ने की तारीख	घटना
1	श्री शैबल गुप्ता	11/11/2016 (अपराहन)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
2	श्री जे. श्रीनिवास राव	30/11/2016 (अपराहन)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
3	श्री वाई.वी. रत्तय्या	23/01/2017 (अपराहन)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

आर. जी. राघवन
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2017

सं. आर.ओ.सी/560(5)एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :-

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	सी.आई.एन.	कंपनी का नाम
1.	31459	G20005278	अक्वामरीन बेवरेजेज एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	सी.आई.एन.	कंपनी का नाम
2.	37822	G24721623	ए के बी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3.	40088	G27408699	अकॉउंटेबल एकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	32686	G27746775	आक्सैंडो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	30615	G27928365	एक्सोल्यूट हैल्थकेयर हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड
6.	33302	G28001634	बलदेव प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
7.	30606	G28062099	जेनसिस (इंडिया) टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8.	29925	G28096865	ऐ जी वी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9.	32517	G28242055	अरोड़ा एमिनेंट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
10.	34814	G28280352	कॉन्टेक्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11.	34804	G28281061	न्यू मॉडर्न एक्सपोर्ट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	34805	G28280733	न्यू टेक एक्सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13.	31487	G28374700	वैक्विश सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
14.	38975	G28395838	डी एम् एस क्रॉप सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	33767	G28460525	एरिया डेवेलोपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	14014	G28532224	गुडलुक इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	34220	G28656544	वी.आए.आर. डिमीटर वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
18.	34219	G28658524	कैरोस एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड
19.	15193	G28666626	एच एस डी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20.	39551	G28584357	कैसपर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	33116	G28731586	शाइन बायोटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
22.	32284	G28793115	ग्रेटवे इंफ्रा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	36846	G28941086	सुपरस्टार एग्री टेक लिमिटेड
24.	32172	G29075496	बी बी एस माइग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड
25.	32784	G29093374	बी बी एस एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26.	39446	G29267895	सनबिज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
27.	31684	G29389657	बिग ब्रॉडर स्टोन एंड ग्रेवल प्राइवेट लिमिटेड
28.	37858	G29246600	एस पी एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड
29.	29391	G29421849	आकाश एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
30.	33855	G29456035	सुरगे इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
31.	34256	G29511458	रियली कूल स्टाफ प्राइवेट लिमिटेड
32.	29575	G29562808	ग्रेवाल फ्रील्ड्स एंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	सी.आई.एन.	कंपनी का नाम
33.	37103	G29619624	हरसुर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
34.	37105	G29603370	सेहज इंफोवोल्ईस प्राइवेट लिमिटेड
35.	31053	G29697505	विस्तार रिटेल लिमिटेड
36.	33697	G29732559	एकॉर्ड टैकनोवा सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	32612	G29849825	माईलैंड एगो इंफ्रा लिमिटेड
38.	32007	G29909975	ऐ के बी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
39.	29427	G30015234	वर्ल्डवाइड पंजाबी सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड
40.	19548	G30105985	साये फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
41.	35359	G30097240	आवाज़ चैनल प्राइवेट लिमिटेड
42.	32747	G30198071	इंनोवामाईंड्स वेब कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
43.	33108	G30537807	ग्रेटपैक एजुकेशनल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
44.	33291	G30595839	अटलांटिक बिज़नस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
45.	24023	G29823275	हेर्बलवेज आयर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड
46.	30856	G30816896	टेक्नोमाईंडज सेंटर फॉर आई टी एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड
47.	35661	G30945604	इंटरसिस कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
48.	31610	G30981310	वाॅयेज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

वी. जी. निपाने
सह रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चन्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर-474001, दिनांक 7 फरवरी 2017

सं. आरओसी-जी/यू/एस 560/2017/13953—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) एवं अधिनियम 2013 की धारा 248(5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज कम्पनी रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	सिन	कम्पनी का नाम
1	U45400MP2015PLC034637	विजयराज डिवाइन रियल इन्फ्रा लिमिटेड
2	U13100MP2013PLC030275	डुनीट मेटल्स लिमिटेड
3	U13200MP2013PTC030322	डुनीट मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड
4	U80903MP2013PTC030945	डुनीट एजुकेशनल एन्ड ट्रेनिंग प्रायवेट लिमिटेड
6	U24232MP1995PTC010217	मोनार्क फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
7	U74200MP2011PTC027234	निओ-रोबोट सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
8	U52590MP2010PTC024227	मेक्सीमल रिटेल एन्ड मार्केटिंग इन्दौर प्रायवेट लिमिटेड
9	U85195MP1997PTC012217	डेल्टा डायग्नोस्टिक प्रायवेट लिमिटेड

क्र.सं.	सिन	कम्पनी का नाम
10	U40102MP2014PTC032076	अरहा सोलर एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
11	U74120MP2015OPC033886	त्वरित फूड ओपीसी प्रायवेट लिमिटेड
14	U24219MP2007PTC019514	भावना बायोसाईन्स प्रायवेट लिमिटेड
15	U24241MP1986PTC003660	राम सोप वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद—380013, दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. आरओसी/गुज/560(5)एफटीई/2016/10188—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी के नाम	सीन नंबर
1	एस अण्ड एस बीपीएम सोल्युशन प्रा.लि.	U74120GJ2015PTC082082
2	एनसी इन्फोटेक प्रा.लि.	U72900GJ2014PTC078542
3	बकुभाई अम्बालाल एन्टरप्राइजेस प्रा.लि.	U51909GJ1998PTC035208
4	ओम एटायर एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U52321GJ2012PTC069096
5	चेस आइटी सोल्युशन प्रा.लि.	U72200GJ2006PTC048749
6	ग्लोबस स्कॅप प्रा.लि.	U27209GJ2009PTC056998
7	वायसीएम ट्रेडलिंग प्रा.लि.	U52190GJ2009PTC058385
8	योगीनी टेक्सटाईल प्रा.लि.	U17120GJ2014PTC080079
9	आरहम हॉस्पिटलिटी प्रा.लि.	U55101GJ2015PTC082411
10	शांतिकृपा सर्विसेस प्रा.लि.	U45500GJ2006PTC047843
11	यमुना ऑरगनायझर्स प्रा.लि.	U45201GJ2004PTC044742
12	कॉनसेप्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	U45200GJ2006PTC047774
13	गुजरात फ्रेश फ्रुट एंड विजेटेबल प्रा.लि.	U15139GJ1999PLC035466
14	अर्चवे ऐक्सिम प्रा.लि.	U52342GJ2008PTC053148
15	गुरुदेव ज्वेअरी प्रा.लि.	U52393GJ2010PTC062442
16	लुप फटिलायजर प्रा.लि.	U24100GJ2015PTC082528
17	कामधेनु खानदेशरी उद्योग प्रा.लि.	U15429GJ1995PTC028219
18	इल-मेडट्रेन्ड बायोटेक प्रा.लि.	U33110GJ2010PTC059962
19	रिलायंस रिसर्च इन्टिट्यूट प्रा.लि.	U73100GJ1994PTC021139

क्र.सं.	कम्पनी के नाम	सीन नंबर
20	वीएनसी डेवलपमेंट (इंडीया) प्रा.लि.	U72200GJ2011PLC066211
21	कावितक फायन्सियल सर्विसेस प्रा.लि.	U74900GJ2011PTC065240
22	ओम निलकंठ ड्रग्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि.	U24231GJ1984PTC007235
23	रैमपिओन आयटेक प्रा.लि.	U33112GJ1989PTC012050
24	एड वल्ड विंग्स ट्रैवल्स प्रा.लि.	U74999GJ2011PTC068183
25	ओएसिस फिल्ड केअर प्रा.लि.	U24120GJ2010PTC062844
26	वाईल्ड कॅट एनर्जी प्रा.लि.	U52602GJ2013PTC075581
27	ग्लोबनेट टेक्नोसॉफ्ट प्रा.लि.	U72900GJ2012PTC070953
28	ए एण्ड टी एनर्जी प्रा.लि.	U40106GJ2012PTC070207
29	इम्पेरिअल स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट्स प्रा.लि.	U74140GJ2014PTC079960
30	एसआरपीएल इन्फाडेवलपर्स प्रा.लि.	U45201GJ2008PTC054945
31	झेब्राटा बुल्डमार्ट प्रा.लि.	U45201GJ2013PTC074309
32	कोटेचा एक्सपोर्ट प्रा.लि.	U24233GJ2008PTC053109
33	हिल इंटरनेट सर्विसेस (ओपीसी) प्रा.लि.	U74140GJ2014OPC079701
34	सीड चक्र बुल्डकोन प्रा.लि.	U45201GJ2006PTC048454
35	व्हीएम इन्फोसिस्टम प्रा.लि.	U72900GJ2012PTC068943
36	लक्ष्मा प्रोफीन प्रा.लि.	U65910GJ1995PLC028015

विजय खुबचंदानी
कंपनी रजिस्टार
गुजरात

एलएलपी अधिनियम, 2008 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. आरओसीपी/नियम 37(3)/एसटीए/2017/6740—एल. एल. पी. नियम 2009 के नियम क्र. 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल. एल. पी. के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल. एल. पी. विघटीत हो गई हैं :—

क्र.सं.	एल. एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
1.	AAD-2745	सामवेद सोलार सिस्टम एलएलपी
2	AAB-3463	अमोर इंटरनैशनल एलएलपी
3.	AAB-0465	ग्लिटररी गारमेंट्स एलएलपी
4.	AAE-7422	प्रांप गोल्ड इंडिया रिअल्टर्स एलएलपी
5.	AAC-2620	मेट्रो स्पेसेस एलएलपी
6.	AAA-0246	प्रॉव्हिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एलएलपी

क्र.सं.	एल. एल. पी. संख्या	एल. एल. पी. का नाम
7.	AAC-7640	ए एण्ड जे मैनेजमेंट कंसल्टंसी एलएलपी
8.	AAD-5860	कनेक्सपॉइंट सॉफ्टेल एलएलपी
9.	AAE-0416	किकास गेम्स एलएलपी
10.	AAD-8526	टेक-फिन एडवायजरी एण्ड इंजिनिअरींग सर्विसेस एलएलपी
11.	AAB-9849	सॅफ ग्लोबल फूड्स एलएलपी
12.	AAD-5073	इमेन्जम इवेस्टमेंट एडवायजरी एलएलपी
13.	AAD-4430	थ्री स्ट्राइव्हर्स ऑनलाईन सर्विसेस एलएलपी
14.	AAE-4602	फोर स्पेसेस एलएलपी
15.	AAB-5949	शिओ स्पेशलिस्ट एडवायजरी एलएलपी
16.	AAC-9547	मधुकल्प डेव्हलपर्स एलएलपी
17.	AAB-8898	इको-ग्रीन कोल्ड स्टोरेज एलएलपी
18.	AAC-4789	क्नीट्रोक्स इन्फोटेक एलएलपी
19.	AAD-1600	व्हॅल्यु प्लस बिज़नेस कंसल्टंसी एलएलपी
20.	AAC-6734	स-फाई ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेस एलएलपी
21.	AAB-9649	केनरीच अप्पैरॉन कॉरपोरेशन एलएलपी
22.	AAB-4629	मोरया निर्माण एलएलपी

अमोल शिंदे
उप कंपनी रजिस्ट्रार
पुणे

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 3 फरवरी 2017

सं. क.र./प0.बं0./एफटीई/560/2015—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 40 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U24239WB2005PTC104241	यूरोलैबो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U29306WB2007PLC112823	एमएम-नेरिफिल (इंडिया) लिमिटेड
3	U70200WB2010PTC142553	सिद्धिविनायक इन्फ्राप्रोपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
4	U45400WB2009PTC136443	नटराज हाइराइज प्राइवेट लिमिटेड
5	U27109WB1984PTC038307	ऑंकार रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U74950WB1996PTC081329	श्रीलैब निओ-पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U52190WB2012PTC174380	हार्डसॉफ्ट बायो-टेम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U51109WB2005PTC103878	स्टैनडर्ड मेडीट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U51909WB2011PTC166624	अनिकेत डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
10	U51909WB2013PTC197579	सुभराशि बिजनस प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
11	U22219WB2012PTC180743	ट्वेन्टीफोर्थ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200WB1995PTC071978	ईस्टर्न कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
13	U13100WB2008PTC131229	मिश्रा नेचुरल रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
14	U45400WB2012PLC185060	फोरिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
15	U72300WB2013PTC193902	स्प्लेंडिक्स सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड
16	U74999WB2011PTC167756	कटिंग एज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
17	U60100WB2005PTC103118	लियो-गल्फ जेवी प्राइवेट लिमिटेड
18	U74950WB2002PTC095232	बानी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	U80301WB2012PTC185090	मल्लिक एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
20	U63040WB2012PTC185096	मल्लिक टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U18109WB2014PTC202076	बायोलाइव्स टेक्स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U51109WB2007PTC118539	अनुरोध एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
23	U55209WB2015PTC207460	आरदेशीर एंड को बार प्राइवेट लिमिटेड
24	U72200WB2012PTC184814	मास्क टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
25	U72200WB2000PTC091535	ईस्ट वेस्ट सॉफ्टकॉम प्राइवेट लिमिटेड
26	U45400WB2011PTC165474	समाधान एएमटी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
27	U74999WB2011PTC167321	पीवी फोरेक्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
28	U45400WB2012PTC189485	शिवदरबार इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
29	U45400WB2012PTC189481	शिवांगन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	U74900WB2013PTC196214	अचिल्लेस टेलीलिक प्राइवेट लिमिटेड
31	U51909WB2011PTC168170	फाल्कोनन कॉमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड
32	U74900WB2013PTC194913	पी ए मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U74900WB2013PTC194790	पी ए डीलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
34	U74210WB2007PTC115135	एंटाइस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
35	U74900WB2012PTC188038	वी3फाइनान्स कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
36	U45201WB1977PTC030888	जेस्ट कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U22300WB2011PTC168100	इच्छेमोती फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
38	U74999WB2011PTC165446	इवेंट लिसनर्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U74999WB2012PTC172162	मकोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U45400WB2012PTC183484	हिरण्य रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड

दीप नारायण चौधुरी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi-110003, the 31st January 2017

No.O.II.3886/2011-Pers-DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr.(Ms.) Taranjit Kaur, SMO (Dy.Comdt.), IRLA No.8655 of Composite Hospital, CRPF Jammu has relinquished the charge of her post in the afternoon of 20/01/2017. Accordingly, her name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 20/01/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

The 2nd February 2017

No.O.II.4040/2015-Pers-DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Chetan Kumar Atmaram Bhosale, Medical Officer (Asstt.Comdt.), IRLA No.10594 of 126 Bn, has relinquished the charge of his post in the afternoon of 31/01/2017. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 31/01/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

The 6th February 2017

No. O.II-7927/2017-Pers-DA.4—Consequent on acceptance of his notice of resignation from Government service by the competent authority, Smt Pallavi Sharma, Deputy Commandant (IRLA-7927) of Group Centre, CRPF, Greater Noida(UP) has relinquished her post on 28/01/2017(AN). Accordingly, her name stands deleted from the strength of the force with effect from 28/01/2017(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers) Dte

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 3rd February 2017

E.O. No. 58 [No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.IX/2974]—In pursuance of OOC No. 1026 dated 13.01.2017 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/(AO)/Vol.IX /2732dated 13.01.2017 the following Asst. Audit Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in the Pay Level 9 in Pay Matrix with effect from the date as indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
01.	Sarat Kumar Gajendra	13.01.2017 AN
02.	Surendranath Nayak	16.01.2017 FN

SNIGDHA MAHANTI
Sr. Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ANDHRA PRADESH & TELANGANA

Hyderabad-500004, the 9th February 2017

No. Admn-I/U-I/4-26/2016-17/208309—The Principal Accountant General(A&E),Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad is pleased to regularize the under mentioned Ad-hoc Assistant Accounts Officer as Assistant Accounts Officer in Level-8 of the Pay Matrix with effect from the date mentioned below :—

Sl. No.	Name Sri/Smt	O.O.No & Date	Date of assumption of Charge as A.A.O.
1.	L. Jyothirmayi	Admn.I/U-I/4-26/ 2016-17/122 dated 12-01-2017	13.01.2017 F.N.

The regularization is ordered without prejudice to the claims of her seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the High Court of Andhra Pradesh & Telangana/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

The 10th February 2017

No. Admn-I/U-8-88/2016-17/208416—Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh & Telangana, Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in Level-9 of the Pay Matrix with effect from the date shown against his name :—

Sl.No	Name Sri/Smt	Office Order No. & Date	Date of assumption of charge as A.O.
1.	G.Sivaprasad	AdmnI/U-4-6/2016-17 OO No.121 dt.12.01.2017	12-01-2017 F.N.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh & Telangana High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th February 2017

No. OE(E&C)/EIV/P/16-17/229—

Sl. No	Name	Designation	Date of Retirement
1	THANKAMMA P M	Accounts Officer Ernakulam Branch	31-12-2016

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Accountant General (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH)

Hyderabad-500016, the 7th February 2017

No. AMD-51(15)/2013-Pen./369—The following Officers have relinquished the charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on acceptance of voluntary retirement on the dates mentioned against each :—

Sl.No.	Name & Designation S/Shri/Smt	Date of Relinquishment	Event
1.	Shaibal Gupta	11/11/2016 (AN)	Voluntary retirement
2.	J. Srinivasa Rao	30/11/2016 (AN)	Voluntary retirement
3.	Y.V.Rathaiah	23/01/2017(AN)	Voluntary retirement

R. G. RAGHAVAN
Chief Administrative and Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(O/O REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 31st January 2017

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

1.	31459	G20005278	Aquamarine Beverages And Food Processing Private Limited
2.	37822	G24721623	Akb Entertainment Private Limited
3.	40088	G27408699	Accountable Accountants Private Limited
4.	32686	G27746775	Accendo Solutions Private Limited
5.	30615	G27928365	Absolute Healthcare Hygiene Private Limited
6.	33302	G28001634	Baldev Properties Private Limited
7.	30606	G28062099	Zensys (India) Technologies Private Limited
8.	29925	G28096865	AGV Entertainment Private Limited
9.	32517	G28242055	Arora Eminent Infotech Private Limited
10.	34814	G28280352	Contect Export Services Private Limited
11.	34804	G28281061	New Modern Export Traders Private Limited
12.	34805	G28280733	New Tech Export Services Private Limited
13.	31487	G28374700	Vanquish Software Private Limited
14.	38975	G28395838	DMS Crop Solutions Private Limited
15.	33767	G28460525	Area Developers and Builders Private Limited
16.	14014	G28532224	Goodluck Impex Private Limited
17.	34220	G28656544	V.I.R. Demeter Wherehousing Private Limited
18.	34219	G28658524	Kyros Energies Private Limited
19.	15193	G28666626	H S D Management Services Private Limited
20.	39551	G28584357	Caspar Solutions Private Limited
21.	33116	G28731586	Shine Biotech Pharma Private Limited
22.	32284	G28793115	Greatway Infra Estates Private Limited
23.	36846	G28941086	Superstar Agro Tech Limited
24.	32172	G29075496	BBS Migration Private Limited
25.	32784	G29093374	BBS Educational and Consultancy Services Private Limited
26.	39446	G29267895	Sunbiz Infra Private Limited
27.	31684	G29389657	Big Brother Stone and Gravel Private Limited
28.	37858	G29246600	SP Educare Private Limited
29.	29391	G29421849	Akash Energy Generation Private Limited
30.	33855	G29456035	Surge Infratech Private Limited
31.	34256	G29511458	Really Cool Stuff Private Limited
32.	29575	G29562808	Grewal Fields and Farms Private Limited
33.	37103	G29619624	Harsur Technologies Private Limited

34.	37105	G29603370	Saihaj Infoworlds Private Limited
35.	31053	G29697505	Vistaar Retail Limited
36.	33697	G29732559	Accord Techennova Solutions Private Limited
37.	32612	G29849825	Myland Agro Infra Limited
38.	32007	G29909975	AKB Infrastructures Private Limited
39.	29427	G30015234	Worldwide Punjabi Cinema Private Limited
40.	19548	G30105985	Saye Finvest Private Limited
41.	35359	G30097240	Awaaz Channel Private Limited
42.	32747	G30198071	Innovaminds Web Consultancy Services Private Limited
43.	33108	G30537807	Greatpac Educational Consulting Private Limited
44.	33291	G30595839	Atlantic Business Centre Private Limited
45.	24023	G29823275	Herbalways Ayurvedic Private Limited
46.	30856	G30816896	Technominds Centre for IT Excellence Private Limited
47.	35661	G30945604	Intersys Consulting India Private Limited
48.	31610	G30981310	Voyage Management Services Private Limited

V. G. NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies

Gwalior-474009, the 7th February 2017

No. ROC-GC/u/s. 560(5)/2017/13953—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and Section 248 (5) of the Companies Act, 2013 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

S.No.	CIN	COMPANY NAMES
1	U45400MP2015PLC034637	VIJAYRAJ DIVINE REAL INFRA LIMITED
2	U13100MP2013PLC030275	DUNITE METALS LIMITED
3	U13200MP2013PTC030322	DUNITE MINERALS PRIVATE LIMITED
4	U80903MP2013PTC030945	DUNITE EDUCATION AND TRAINING PRIVATE LIMITED
5	U24232MP1995PTC010217	MONARCH PHARMACEUTICALS (INDIA)PVT LTD
6	U74200MP2011PTC027234	NEO-ROBOT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
7	U52590MP2010PTC024227	MAXIMAL RETAIL & MARKETING INDORE PRIVATE LIMITED
8	U85195MP1997PTC012217	DELTA DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
9	U40102MP2014PTC032076	ARAHA SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
10	U74120MP2015OPC033886	TWARIT FOODS OPC PRIVATE LIMITED
11	U24219MP2007PTC019514	BHAVANA BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
12	U24241MP1986PTC003660	RAM SOAP WORKS PVT. LTD.

HARIHARA SAHOO
Registrar of Companies
Madhya Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies

Ahmedabad-380013, the 9th February 2017

No. ROC/GUJ/560(5)/FTE/2016/10188—Notice is hereby given pursuant to sub – section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :-

SR.NO.	NAME OF THE COMPANY	CIN NO.
1	S & S BPM SOLUTION PRIVATE LIMITED	U74120GJ2015PTC082082
2	NC INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900GJ2014PTC078542
3	BAKUBHAI AMBALAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51909GJ1998PTC035208
4	OM ATTIRE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U52321GJ2012PTC069096
5	CHASE IT SOLUTIONS P LTD	U72200GJ2006PTC048749
6	GLOBUS SCRAP PRIVATE LIMITED	U27209GJ2009PTC056998
7	YCM TRADELINK PRIVATE LIMITED	U52190GJ2009PTC058385
8	YOGINI TEXTILE PRIVATE LIMITED	U17120GJ2014PTC080079
9	ARHAM HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101GJ2015PTC082411
10	SHANTIKRUPA SERVICES PRIVATE LIMITED	U45500GJ2006PTC047843
11	YAMUNA ORGANISORS PRIVATE LIMITED	U45201GJ2004PTC044742
12	CONCEPT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200GJ2006PTC047774
13	GUJARAT FRESH FRUITS AND VEGETABLES LIMITED	U15139GJ1999PLC035466
14	ARCHWAY EXIM PRIVATE LIMITED	U52342GJ2008PTC053148
15	GURUDEV JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U52393GJ2010PTC062442
16	LOOP FERTILIZERS PRIVATE LIMITED	U24100GJ2015PTC082528
17	KAMDHENU KHANDSHARI UDHYOG PRIVATE LIMITED	U15429GJ1995PTC028219
18	EASE-MEDTREND BIOTECH PRIVATE LIMITED.	U33110GJ2010PTC059962
19	RELIANCE RESEARCH INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U73100GJ1994PTC021139
20	VNC DEVELOPMENTS (INDIA) LIMITED	U72200GJ2011PLC066211
21	CAVITAK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900GJ2011PTC065240
22	OM NEELKANTH DRUGS AND CHEMICALS PVT LTD	U24231GJ1984PTC007235
23	RAMPION EYETECH PRIVATE LIMITED	U33112GJ1989PTC012050
24	AD WORLD WINGS TRAVELS PRIVATE LIMITED	U74999GJ2011PTC068183
25	OASIS FIELD CARE PRIVATE LIMITED	U24120GJ2010PTC062844
26	WILD CAT ENERGY DRINK (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52602GJ2013PTC075581
27	GLOBNET TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED	U72900GJ2012PTC070953
28	A & T ENERGY PRIVATE LIMITED	U40106GJ2012PTC070207
29	IMPERIAL STRUCTURAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140GJ2014PTC079960
30	SRPL INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201GJ2008PTC054945
31	ZEBRATA BUILDMART PRIVATE LIMITED	U45201GJ2013PTC074309
32	KOTECHA EXPORTS PRIVATE LIMITED	U24233GJ2008PTC053109
33	HEAL INTERNET SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED	U74140GJ2014OPC079701
34	SIDD CHAKRA BUILDCON PVT. LTD	U45201GJ2006PTC048454
35	VM INFOSYSTEM PRIVATE LIMITED	U72900GJ2012PTC068943
36	LAXMI PROFIN LIMITED	U65910GJ1995PLC028015

VIJAY KHUBCHANDANI
REGISTRAR OF COMPANIES
GUJARAT, DADRA & NAGAR HAVELI

In the matter of LLP Act 2008 and of the following LLP's

Pune-411004, the 9th February 2017

No. ROC/P/Rule 37(3)/STA/2017/6740—List of 22 LLPs struck off from the register of Registrar of Companies, Pune under Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 :—

Sr. No.	LLPIN	Name of LLP
1.	AAD-2745	SAMVED SOLAR SYSTEM LLP
2	AAB-3463	AMORE INTERNATIONAL LLP
3.	AAB-0465	GLITTERARTY GARMENTS LLP
4.	AAE-7422	PROP GOLD INDIA REALTORS LLP
5.	AAC-2620	METRO SPACES LLP
6.	AAA-0246	PROVIDENT PROJECT MANAGEMENT LLP
7.	AAC-7640	A & J MANAGEMENT CONSULTANCY LLP
8.	AAD-5860	CONNEXPOINT SOFTEL LLP
9.	AAE-0416	KICKASS GAMES LLP
10.	AAD-8526	TECH-FIN ADVISORY & ENGINEERING SERVICES LLP
11.	AAB-9849	SAF GLOBAL FOODS LLP
12.	AAD-5073	IMMENSUM INVESTMENT ADVISORY LLP
13.	AAD-4430	THREE STRIVERS ONLINE SERVICES LLP
14.	AAE-4602	FOUR SPACES LLP
15.	AAB-5949	CIO SPECIALIST ADVISORY LLP
16.	AAC-9547	MADHUKALP DEVELOPERS LLP
17.	AAB-8898	ECO-GREEN COLD STORAGE LLP
18.	AAC-4789	KNITROX INFOTECH LLP
19.	AAD-1600	VALUE PLUS BUSINESS CONSULTANCY LLP
20.	AAC-6734	SA-FAI TRADING & SERVICES LLP
21.	AAB-9649	KENNRICH APEIRON CORPORATION LLP
22.	AAB-4629	MORAYA NIRMAN LLP

AMOL SHINDE
DY. REGISTRAR OF COMPANIES
PUNE

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 3rd February 2017

No.ROC/WB/FTE/560/2015—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 40 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	U24239WB2005PTC104241	EUROLABO PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2	U29306WB2007PLC112823	MM-NERIFILL (INDIA) LIMITED
3	U70200WB2010PTC142553	SIDDHIVINAYAK INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED
4	U45400WB2009PTC136443	NATRAJ HIGHRISE PRIVATE LIMITED
5	U27109WB1984PTC038307	ONKAR ROLLING MILLS PVT LTD
6	U74950WB1996PTC081329	SRILAB NEO-PACKS PRIVATE LIMITED
7	U52190WB2012PTC174380	HARDSOFT BIO-TEM PRODUCTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
8	U51109WB2005PTC103878	STANDARD MEDIDRIPS PRIVATE LIMITED
9	U51909WB2011PTC166624	ANIKET DEALTRADE PRIVATE LIMITED
10	U51909WB2013PTC197579	SUBHRASHI BUSINESS PRIVATE LIMITED
11	U22219WB2012PTC180743	TWENTYFORTH MEDIA PRIVATE LIMITED
12	U72200WB1995PTC071978	EASTERN COMPUTECH PVT. LTD.
13	U13100WB2008PTC131229	MISHRA NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
14	U45400WB2012PLC185060	FOREACE PROJECTS LIMITED
15	U72300WB2013PTC193902	SPLENTRIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	U74999WB2011PTC167756	CUTTING EDGE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
17	U60100WB2005PTC103118	LEO - GULF JV PRIVATE LIMITED
18	U74950WB2002PTC095232	BANI PACKAGING PRIVATE LIMITED
19	U80301WB2012PTC185090	MALLICK EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
20	U63040WB2012PTC185096	MALLICK TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
21	U18109WB2014PTC202076	BIOLIVE TEXTILES PRIVATE LIMITED
22	U51109WB2007PTC118539	ANURODH AGENCY PRIVATE LIMITED.
23	U55209WB2015PTC207460	ARDESHIR & CO BAR PRIVATE LIMITED
24	U72200WB2012PTC184814	MASK TECHNO PRIVATE LIMITED
25	U72200WB2000PTC091535	EAST WEST SOFTCOM PRIVATE LIMITED
26	U45400WB2011PTC165474	SAMADHAN AMT REALTY PRIVATE LIMITED
27	U74999WB2011PTC167321	PV FOREX SERVICES PRIVATE LIMITED
28	U45400WB2012PTC189485	SHIVDARBAR INFRATECH PRIVATE LIMITED
29	U45400WB2012PTC189481	SHIVAANGAN HOUSING PRIVATE LIMITED
30	U74900WB2013PTC196214	ACHILLES TELELINK PRIVATE LIMITED
31	U51909WB2011PTC168170	FALCONONE COMMODITIES PRIVATE LIMITED
32	U74900WB2013PTC194913	P A MERCHANTS PRIVATE LIMITED
33	U74900WB2013PTC194790	P A DEALMARK PRIVATE LIMITED
34	U74210WB2007PTC115135	ENTICE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
35	U74900WB2012PTC188038	WE3FINANCE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
36	U45201WB1977PTC030888	ZEST CONSTRUCTION PVT LTD
37	U22300WB2011PTC168100	ICHHMOTI FILMS PRIVATE LIMITED
38	U74999WB2011PTC165446	EVENT LISTENERS PRIVATE LIMITED
39	U74999WB2012PTC172162	MACON ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
40	U45400WB2012PTC183484	HIRANYA REALTORS PRIVATE LIMITED

D. N. CHOWDHURY
Dy. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

**BANSHI DHAR
DUBEY**

Digitally signed by BANSHI DHAR
DUBEY
Date: 2017.02.25 12:12:45 +05'30'